



Extracts from the Register of Copyrights



प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय, भारत सरकार | Copyright Office, Government Of India

दिनांक/Dated:22/11/2023

- पंजीकरण संख्या/Registration Number
- आवेदक का नाम, पता तथा राष्ट्रियता
Name, address and nationality of the applicant
- कृति के प्रतिलिप्यधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति
Nature of the applicant's interest in the copyright of the work
- कृति का वर्ग और वर्णन
Class and description of the work
- कृति का शीर्षक
Title of the work
- कृति की भाषा
Language of the work
- रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रियता तथा यदि रचयिता की मृत्यु हो गई है, तो मृत्यु की तिथि
Name, address and nationality of the author and if the author is deceased, date of his decease
- कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
Whether the work is published or unpublished
- प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रियता
Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher
- बाद के प्रकाशनों के वर्ष और देश, यदि कोई हों, और प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रियताएं
Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers
- कृति में प्रतिलिप्यधिकार सहित विभिन्न अधिकारों के रचयिताओं के नाम, पते और राष्ट्रियताएं और समुन्देशन और अनुज्ञापियों के विवरण के साथ प्रत्येक के अधिकार का विस्तार, यदि कोई हो।
Names, addresses and nationalities of the owners of various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any.

SW-17655/2023

ABHIGNA N U , DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, JSS AHER, MYSORE-570015 INDIAN

OWNER

COMPUTER SOFTWARE WORK THE PRESENT INVENTION RELATES TO THE FIELD OF A COMPUTATIONAL TOOL TO CONVERT THE THREE DIMENSIONAL STRUCTURE OF SSRNA TO SSDNA THAT MIGHT BE USEFUL IN THE STRUCTURE PREDICTION OF DNA BASED THERAPEUTIC

RNA2DNA : A WEBSERVER TO CONVERT THREE DIMENSIONAL STRUCTURES OF SSRNA TO SSDNA

PYTHON

ABHIGNA N U , DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, JSS AHER, MYSORE-570015 INDIAN

CHANDAN SHIVAMALLU , DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, JSS AHER-570015 INDIAN

KOLLUR SHIVA PRASAD , DEPARTMENT OF SCIENCES, AMRITA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES, AMRITA VISHVA VIDYAPEETHAM, MYSURU CAMPUS, MYSURU, KARNATAKA-570026 INDIAN

SHASHIDHAR R , ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF E & C ENGINEERING, SRI JAYACHAMARAJENDRA COLLEGE OF ENGINEERING MYSURU- KARNATAKA STATE-570006 INDIAN

KRISHNA KUMAR BALACHANDRA BHAT , DEPT. OF E & C ENGINEERING, SRI JAYACHAMARAJENDRA COLLEGE OF ENGINEERING MYSURU KARNATAKA STATE-570006 INDIAN

HEMANTH C NAIK , PROJECT ASSISTANT INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE GAYEN LAB BANGLORE-570012 INDIAN

PRASHANT M VISHWANATH , DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY, JSS MEDICAL COLLEGE, JSS UNIVERSITY, MYSORE, KARNATAKA-570015 INDIAN

UNPUBLISHED

N.A.

N.A.

ABHIGNA N U , DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, JSS AHER, MYSORE-570015 INDIAN

CHANDAN SHIVAMALLU , DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS, JSS AHER-570015 INDIAN

KOLLUR SHIVA PRASAD , DEPARTMENT OF SCIENCES, AMRITA SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES, AMRITA VISHVA VIDYAPEETHAM, MYSURU CAMPUS, MYSURU, KARNATAKA-570026 INDIAN

SHASHIDHAR R , ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF E & C ENGINEERING, SRI JAYACHAMARAJENDRA COLLEGE OF ENGINEERING MYSURU- KARNATAKA STATE-570006 INDIAN

KRISHNA KUMAR BALACHANDRA BHAT , DEPT. OF E & C ENGINEERING, SRI JAYACHAMARAJENDRA COLLEGE OF ENGINEERING MYSURU KARNATAKA STATE-570006 INDIAN

HEMANTH C NAIK , PROJECT ASSISTANT INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE GAYEN LAB BANGLORE-570012 INDIAN

PRASHANT M VISHWANATH , DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY, JSS MEDICAL COLLEGE, JSS UNIVERSITY, MYSORE, KARNATAKA-570015 INDIAN



Registrar of Copyrights